



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 800) पटना, बुधवार, 28 सितम्बर 2016

सं0 3ए-9-विविध-34/2016—7549/वि0
वित्त विभाग

संकल्प

22 सितम्बर 2016

विषय:—क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय, आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के प्रोन्नति के तृतीय पदसोपान प्रधान
आशुलिपिक/प्रधान आशुटंकक का वेतनमान निर्धारित करने के संबंध में।

राज्य सरकार के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों एवं समाहरणालय के आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के मूल कोटि एवं प्रोन्नति के पदसोपान के लिए उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3011, दिनांक 20/03/2012 द्वारा दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से निम्नरूपेण वेतनमान स्वीकृत किया गया है—

| क्रमांक | कोटि एवं पद स्तर | वेतनमान |
|---------|---|---------------------------|
| | आशुलिपिक, ग्रेड III/आशुटंकक III (मूल कोटि) | पी०बी०-1+ ग्रेड-पे 2400/- |
| | आशुलिपिक, ग्रेड II/आशुटंकक II (प्रोन्नति का प्रथम पदसोपान) | पी०बी०-2+ ग्रेड-पे 4200/- |
| | आशुलिपिक, ग्रेड I/आशुटंकक I (प्रोन्नति का द्वितीय पदसोपान) | पी०बी०-2+ ग्रेड-पे 4600/- |

2. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-8489, दिनांक 11/06/2015 के द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय, आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2015 प्रवृत्त किया गया है जिसमें पूर्व के दो प्रोन्नति सोपान के अतिरिक्त तृतीय पदसोपान निम्नवत् विहित किया गया है-

| क्रमांक | कोटि | पद स्तर |
|---------|----------------------------------|--------------------------------|
| | आशुलिपिक, ग्रेड III/आशुटंकक III | (मूल कोटि) |
| | आशुलिपिक, ग्रेड II/आशुटंकक II | (प्रोन्नति का प्रथम पदसोपान) |
| | वरीय आशुलिपिक, ग्रेड I/आशुटंकक I | (प्रोन्नति का द्वितीय पदसोपान) |
| | प्रधान आशुलिपिक/प्रधान आशुटंकक | (प्रोन्नति का तृतीय पदसोपान) |

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3011, दिनांक 20/03/2012 के द्वारा दो प्रोन्नति के पद स्तर का ही वेतनमान स्वीकृत किया गया था। नई संरचना आने पर इस संवर्ग में प्रोन्नति के तृतीय पद प्रधान आशुलिपिक/प्रधान आशुटंकक का वेतनमान स्वीकृत नहीं हो सका है।

नियमावली में तृतीय प्रोन्नति के पद उपलब्ध हो जाने के बाद इस पद के वेतनमान की स्वीकृति आवश्यक हो गई है।

4. सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि- क्षेत्रीय कार्यालय एवं समाहरणालय आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग के प्रोन्नति के तृतीय पद प्रधान आशुलिपिक/प्रधान आशुटंकक का वेतनमान, नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि दिनांक 11/06/2015 के प्रभाव से, पी०बी०-2+ग्रेड-पे 4800/- की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राहुल सिंह,

सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 800-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>